

THAT BABY

वो बच्चा



Cries everyday, dirties everything

रोज रोता है, गंदगी करता है



Puts everything into the mouth

सब कुछ मुंह में डालता है




He has to be carried the whole day

उसे दिन भर गोदी उठाना पड़ता है



I don't like that child

मुझे ये बच्चा नापसंद है



But he now smiling at me, and holding my finger

पर अब वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और मेरी ऊंगली पकड़े है



I quite like the baby
मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है